

सभी सरकारी इमारतों और शिक्षा संस्थानों के ऊर्जा आडिट के आदेश

khaskhabar.com : सोमवार, 09 □ प्रब 2018 7:00 PM

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में सभी सरकारी इमारतों और शिक्षा संस्थानों का ऊर्जा आडिट करने के लिए पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कौंसिल (पी.एस.सी.एस.टी) को कहा है।

इसका उद्देश्य राज्य में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और बिजली के ज्यादा खर्चों में कमी लाना है जो कि इस समय पर इन इमारतों में बहुत ज्यादा हैं।

आज □हां एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि

मुख्यमंत्री ने □ह निर्देश पुष्पा गुजराल विज्ञान सिटी (पी.जी.एस.सी) सोसा□टी की 13वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जारी कि□े सरकारी इमारतों /संस्था□ों /कार्पोरल□ों में बिजली की अंधाधुंध प्र□ोग पर चिंता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि □ह आडिट ज्यादातर सार्वजनिक हितों के मद्देनजर बिजली की बचत में मददगार होगा।

मुख्यमंत्री ने पी.एस.सी.एस.टी के कार्पोरल डायरेक्टर डा. जतिन्दर कौर अरोड़ा द्वारा मीटिंग में पुष्पा गुजराल विज्ञान सिटी द्वारा करवाए गए ऊर्जा आडिट संबंधी दी जानकारी के बाद □ह निर्देश दिए । ऊर्जा बचत संबंधी विभिन्न कदम लागू कि□े जाने के बाद वार्षिक 12 लाख रुपए की बिजली की बचत हुई है जबकि इस आडिट के लिए केवल 1.7 लाख रुपए निवेश कि□े गए। पी.जी.एस.सी को इस प्रोजेक्ट के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संभाल अवार्ड दिया गया।

कौंसिल ने और भी बहुत सी इमारतों का ऊर्जा आडिट कि□ा जिन में विरासत -ए -खालसा, ट्ब्लून् कंपलैक्स, मंडी बोर्ड, इन्द्र कुमार गुजराल पंजाब टैकनिकल यूनिवर्सिटी भी शामिल थे। इसके अलावा कौंसिल ने विभिन्न उद्योगों का भी ऊर्जा आडिट कि□ा है। मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री ने विज्ञान सिटी रंगमंच का 3 डी से 5 डी तक स्तर उँचा उठाने के लिए पी.जी.एस.सी को मंजूरी दे दी है। मीटिंग के दौरान उन्होंने को बताया गया कि रोबोटिक डायनासोर संबंधी गैलरी सार्वजनिक -निजी हिस्सेदारी अधीन बनाई जा रही है जबकि आईमैक्स फ़िल्म 'एवरेस्ट' जनता की मांग पर इस साल जून से विज्ञान सिटी के स्पेस रंगमंच में फिर प्रदर्शित की जा रही है।

इस दौरान मुख्यमंत्री को ग्रामीण लोगों के लिए मोबाईल विज्ञान प्रदर्शनी, रात समय पर आसमान को देखने वाले प्रोजेक्ट और नौजवानों में न□े विचारों को भरने और उनमें उत्सुकता पैदा करने के लिए सुविधाओं मुहैया करवाने के लिए एक इन्वोवेशन हब सहित पी.जी.एस.सी द्वारा शुरू कि□े विभिन्न प्रोग्रामों संबंधी जानकारी दी गई । कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौजवानों में विज्ञान की रुचि पैदा करने के लिए पी.जी.एस.सी द्वारा की जा रही कोशिशों की सराहना की। पिछले साल तक लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी विज्ञान सिटी का दौरा कर चुके हैं जिनमें से 1.5 लाख विद्यार्थी राज्य भर के सरकारी स्कूलों से सम्बन्धित थे। उन्होंने □ह दौरा मुख्यमंत्री विज्ञान □ात्रा के अधीन कि□ा है । स्कूल शिक्षा के सचिव ने बताया कि उनके विभाग ने वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान दो लाख से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को □ह दौरा करवाने की □ोजना बनाई है।

इस मौके पर मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा एस.के. संधू, अतिरिक्त मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा एम.पी. सिंह, प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी डा. रोशन सुंकारि□ा, डायरेक्टर उद्योग डी.पी.एस. खरबन्दा, डायरेक्टर जनरल /मैबर सचिव पी.जी.एस.सी और डी.सी. कपूरथला मुहम्मद त□ाब, सचिव स्कूल शिक्षा क्रिशन कुमार, वाइस चांसलर बाबा फरीद हैल्य विज्ञान यूनिवर्सिटी डा. राज बहादुर, वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटि□ाला डा. बी.एस. घूमन, वाइस चांसलर जी.एन.डी.यू अमृतसर डा. जसपाल सिंह संधू, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा डा. आर.के. कोहली, डीन कालजिज़ पी.ए.यू लुधि□ाना डा. गुविन्दर कौर संघा और डीन आई.के.जी.पी.टी.यू डा. बलकार सिंह उपस्थित थे ।

